

**Assignment 19**

**Date: Thursday, 28<sup>th</sup> May 2020**

**Maths :**

Collect the relevant data and present it through Tally marks for physical or mental activities which are followed by you and your family members/friends in a week.

**Conceptual Understanding:** Data can be collected, organized and displayed in various ways.

Relation	Book Reading	Dance	Yoga	Gardening
Myself				
Mother				
Father				
Brother/Sister				
Friend				

**Assessment Criteria (Rubrics)**

4	3	2	1
Collects the relevant data and presents it through Tally marks accurately.	Collects the relevant data and presents it through Tally marks satisfactorily.	Collects the relevant data and presents it through Tally marks with a few mistakes.	Collects the relevant data and presents it through Tally marks with guidance.

Teacher's feedback:

---

## Hindi :

### गाजर मूली का झगड़ा

दिए गए प्रश्न कीजिए:

प्रश्न - 2 किसने कहा ? मिलान कीजिए।

अ	ब
1- टमाटर	दोनों एक-दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं।
2- सहजन	मनुष्य की आँखें ढीक रखते हो।
3- बैंगन	दोनों के कारण फेफड़ा, किडनी स्वस्थ रहते हैं।
4- हरी मिर्च	सब्जी न खाने वालों की पिटाई करता हूँ।

प्रश्न - 3 वाक्य बनाइए-

क- खिसक - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ख- विटामिन - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ग- कोशिश - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

घ- आदेश - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ङ- सुलह - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

प्रश्न - 4 उचित विराम चिह्न लगाकर वाक्य फिर से लिखिए।

क- मूली का नाम क्यों लिखा है

ख- अब हम कभी नहीं लड़ेंगे

ग- यह जगह क्या तेरी है

# UOI :

Watch the video and self-assess yourself through the sheet given.

<https://www.youtube.com/watch?v=jEy0Ltlm3nU>

## MY HYGIENE

Hygiene means taking care of your body by keeping yourself clean and healthy every day! Use this worksheet to answer questions about your hygiene habits.

Why do you think good hygiene is important?

---

On a scale of 1 – 10, how would you rate how good your hygiene is?

**1      2      3      4      5      6      7      8      9      10**

What are some good hygiene habits that you have?

---

---

---

---

What are some things that you think need improvement?

---

---

---

---

What have others said about your hygiene?

---

---

What changes can you start making to help improve your hygiene?

---

---

---



© 2017 Mylemarks LLC. All Rights Reserved.  
For more resources, visit [www.mylemarks.com](http://www.mylemarks.com)

## Summative Task

### UOI and Language

**Conceptual Understanding**: Growth and development depends on various factors

- a) Show your understanding about factors that affect growth and development **through a mind map.**
- b) Write a paragraph based on your mind map and underline nouns. (7-8 sentences)

### Assessment Criteria (Checklist)

Learner was able to:

Use <b>punctuation marks</b> properly.	Identify <b>nouns</b> correctly.	Show understanding of the concept. <b>(Responsibility)</b>	Display himself/herself as a <b>Balanced</b> learner.	Total
1	1	1	1	

Teacher's feedback:

---

## **Art :**

### FORK PRINTING SUN

Create the Shiny Sun by using the picture given as reference with the help of Poster/ Acrylic Colors. Draw & Color your Sun by using the Fork printing technique to complete it.



## **PE :**

<https://www.youtube.com/watch?v=0hN31zbf8iw&feature=youtu.be>

Watch the video and follow the steps.

## **Dance :**

<https://www.youtube.com/watch?v=lpJuU-Gv5T8>

Learners learn and follow the Zumba steps with the given video.